

COMMUNITY PROJECTS AND N.E.S.
BLOCKS IN N.E.F.A.

2019. Shri Rishang Keishing : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number of Community Projects and N.E.S. Blocks opened in the First Five Year Plan in the whole of N.E.F.A. ;

(b) how and from where the officers and the village level workers are obtained; and

(c) the attempts Government have made to recruit and train up the local people ?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra) : (a) Community Development Block—1, National Extension Service Blocks (N.E.F.A. Type)—5.

(b) Most of the officers and Village Level Workers have been drafted from the existing Agency personnel and other Departments. Recruitment was also made from outside, especially from Assam, preference being given to the Tribals who were given requisite training.

(c) Apart from recruiting suitable local candidates for manning these blocks and arranging for their training outside N.E.F. Agency, the Agency Administration have recently decided to fill the posts of Village Level Workers entirely by local people. For this purpose, educational qualifications have been relaxed. An Extension Training Centre has also been started at Pasighat.

NATIONAL BUILDING ORGANISATION

2020. Shri Radha Raman : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Building Organisation has suggested the construction in each State of an adequate number of experimental buildings involving departure from traditional specifications and design ;

(b) if so, whether Government propose to include such building programme in its Housing Plan ; and

(c) what are the estimates of investment on such construction ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Works, Housing and Supply (Shri P. S. Naskar) : (a) The National Building Council, in their first meeting held on the 5th & 6th March, 1956, adopted a resolution recommending the construction of an adequate number of experimental buildings in each State.

(b) and (c). This will depend upon the nature and extent of departures from the use of traditional materials, designs and practices that may eventually be recommended by the National Buildings Organisation on the basis of necessary technical study and research and the extent to which State Governments build on that basis.

COAL

2021. Shri Ibrahim : Will the Minister of **Production** be pleased to state :

(a) the quantity of coal and coke produced in the months of June, and September 1955 ; and

(b) how these figures compare with those in the corresponding months of 1954 ?

The Minister of Production (Shri K. C. Reddy) : (a) and (b). Comparative figures are given below :—

	June '54 Tons	June '55 Tons	Sept. '54 Tons	Sept. '55 Tons
Coal	2,885,182	3,074,672	3,171,404	3,378,365
Hard Coke	192,083	212,122	192,326	217,844
Soft Coke	134,152	129,928	173,866	185,844

IMPORT POLICY

2022. Shri Ibrahim : Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have liberalised their import policy recently ; and

(b) if so, the extent to which the quota for the import of items like confectionary, biscuits, jams and cakes has been raised for the period from July to December 1955 ?

The Minister of Commerce and Industry and Iron and Steel (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). It is not possible to make a general statement of this nature since Government

have liberalised its import policy in regard to imports of machinery and industrial raw materials over several half years. Quota restrictions have been removed or relaxed in the case of several commodities when the import duties on these articles have been raised.

INDIAN EMIGRANTS TO MALAYA AND SINGAPORE

2023. Shri Ibrahim : Will the Prime Minister be pleased to state the number of Indians who have proceeded to Malaya and Singapore after the introduction of new Immigration Regulations there in August 1953 ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru) : The number of Indians who left by sea for Malaya and Singapore from August 1953 to March 1956 was 76,009, the vast majority being "returning residents".

नीरा से चीनी

२०२४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नीरा' से चीनी बनाने के प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेडी) : (क) जी, हां

(ख) ताड़ गुड़ उद्योग के विकास के लिए सहकारी समितियों, रजिस्टर्ड संस्थाओं तथा कानून द्वारा स्थापित राजकीय बोर्डों को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इस उद्योग के विकास कार्यक्रम में नीरा से चीनी बनाने का काम सम्मिलित है।

पीतल की चादरों के कारखाने

२०२५. श्री के० सी० सोधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पीतल की चादरें बनाने के बड़े कारखाने कितने हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) १९५५-५६ में कितने टन पीतल की चादरें बनाई गईं;

(ग) इन कारखानों की कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में अनुमानतः पीतल की वार्षिक खपत कितनी है और प्रतिरक्षा-कारखानों में पीतल का कितना उत्पादन होता है।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) :-

(क) दस कारखाने हैं, जो निम्न राज्यों में हैं

राज्य का नाम	कारखानों की संख्या
बम्बई	५
बिहार	१
प० बंगाल	१
राजस्थान	१
मद्रास	१
पंजाब	१

(ख) लगभग १०,२२० टन

(ग) केवल पीतल की चादरें बनाने की उनकी उत्पादन क्षमता के सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु पीतल की चादरें और गोल खण्ड तथा तांबे की चादरें और गोल खंड ढालने की कुल क्षमता लगभग ४०,५०० टन वार्षिक की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इसके निम्न मुख्य कारण हैं :-

(१) बड़े पैमाने के उत्पादकों के यहाँ व्यापारिक श्रेणी की पीतल की चादरें बनाने की ही मशीनें मुख्यता हैं जिनकी मांग गिरगयी है। औद्योगिक प्रकार की चादरें बनाये जाने की देश में अभी व्यवस्था होनी शेष है।

(२) पीतल की चादरें बनाने वाले उत्पादकों और छोटे उत्पादकों में अब भी प्रतियोगिता चल रही है क्योंकि छोटे उत्पादकों की जो टूटी-फूटी पीतल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उत्पादन लागत कम होती है।